



# Government Arts and Science College Ratlam (M.P.) 457001



Phone: 07412 - 235149

E-mail: hegaaspgrat@mp.gov.in, pgcolrtm@hotmail.com

The syllabus applied in UG and PG for the session 2019-20 have been adopted from Central Board of Studies Bhopal and Vikram University Ujjain respectively.

*(Handwritten signature)*

Principal

**Principal**

Govt. Arts and Science College  
Ratlam (M.P.)  
Ratlam (M.P.)



सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में अंको का विभाजन निम्नानुसार होगा :- (नियमित छात्रों के लिए)

खण्ड -अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न - प्रत्येक इकाई से दो -दो प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न  $\frac{1}{2}$  अंक का होगा। कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे।  $10 \times \frac{1}{2} = 05$

खण्ड -ब लघु उत्तरीय प्रश्न - प्रत्येक इकाई से विकल्प के साथ एक -एक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा  $5 \times 2 = 10$

खण्ड -स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न - प्रत्येक इकाई से विकल्प के साथ एक -एक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा  $5 \times 5 = 25$

पाठ्य ग्रन्थ : 1 त्रयी - मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।

2. न्यू वैदिक सिलेक्शन - तैलंग एवं चौबे।

संदर्भ ग्रन्थ :-

1. लघुसिद्धान्त कौमुदी - डॉ. महेश सिंह कुशवाहा।

2. रचनानुवाद कौमुदी - डॉ. कपिलदेव द्विवेदी।

3. वैदिक साहित्य का इतिहास - डॉ. बलदेव उपाध्याय।

(K. S. Singh)

(डॉ. अरवि प्रसाद)

(डॉ. अरवि प्रसाद)

(डॉ. नयिनी जोशी)

(डॉ. अरवि प्रसाद)

(डॉ. बी. पी. निवार)

(डॉ. अरवि प्रसाद)

(डॉ. बी. पी. निवार)

डॉ. माला च्यावली

**Department Of Higher Education Govt. Of M.P.**  
**Under Graduate Annual System Syllabus**  
 As recommended by central Board of studies and Approved by the  
 Governor Of M.P.

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन  
 स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रम  
 केन्द्रीय अध्ययन मंडल द्वारा अनुशासित तथा म.प्र. के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित  
 Session – 2019-20

Class/कक्षा	:	B.A. I – Year/बी.ए. – प्रथम वर्ष
Subject/विषय	:	संस्कृत
Paper No. /प्रश्नपत्र क्रमांक	:	द्वितीय प्रश्नपत्र
Title Of Paper	:	आर्षकाव्य एवं लौकिक काव्य
Max. Marks/ अधिकतम अंक	:	40

**Particulars/विवरण**

इकाई –1	वाल्मीकिरामायणम् का सामान्य परिचय एवं महत्व, वाल्मीकि रामायण –सुन्दर काण्ड, सर्ग – 15 श्लोक नं 1–30 तक की व्याख्या सुन्दर काण्ड प्रथम सर्ग पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न
इकाई –2	महाभारत का सामान्य परिचय एवं महत्व महाभारत – शान्ति पर्व (अध्याय 192) अध्याय – 192 व्याख्या अध्याय – 192– पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न
इकाई –3	रघुवंशम् का सामान्य परिचय एवं महत्व, रघुवंशम् प्रथम सर्ग श्लोक संख्या 1–30 तक की व्याख्या पाठ्यांश पर आलोचनात्मक प्रश्न
इकाई –4	स्वप्नवासवदत्तम् का सामान्य परिचय प्रथम एवं षष्ठ अंक पर व्याख्या एवं प्रश्न
इकाई– 5	लघुत्रयी एवं बृहत्त्रयी का सामान्य परिचय एवं मेघदूत (पू.मे.) श्लोक संख्या 1–30 तक की व्याख्या
नोट	नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सैद्धांतिक प्रश्नपत्र 40 अंक का होगा तथा आंतरिक मूल्यांकन 10 अंक का होगा। परन्तु अमहाविद्यालयीन (स्वाध्यायी) विद्यार्थियों के लिए उक्त प्रश्नपत्र 50 अंका का होगा। प्रत्येक इकाई 10 अंकों की होगी।

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'K.B. Pandey', 'Dr. Anand', and 'Dr. N. S. (K. S. Pandey)'. There are also some illegible scribbles and marks.

सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में अंको का विभाजन निम्नानुसार होगा :- (नियमित छात्रों के लिए)

खण्ड -अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न - प्रत्येक इकाई से दो -दो प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न ½ अंक का होगा। कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे।  $10 \times \frac{1}{2} = 05$

खण्ड -ब लघु उत्तरीय प्रश्न - प्रत्येक इकाई से विकल्प के साथ एक -एक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा  $5 \times 2 = 10$

खण्ड -स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न - प्रत्येक इकाई से विकल्प के साथ एक -एक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा  $5 \times 5 = 25$

पाठ्य ग्रन्थ : 1 त्रयी - मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल।

संदर्भ ग्रन्थ :-

1. स्वप्नवासदत्तम् - भास
2. संस्कृत कविदर्शन - डॉ. भोला शंकर व्यास।
3. संस्कृत साहित्य का इतिहास - डॉ. बलदेव उपाध्याय।

(K. S. Pandey)

(Dr. A. S. P. Singh)

(Dr. B. D. Upadhyay)

(Dr. B. S. Singh)

(Dr. R. S. Singh)

(Dr. S. S. Singh)

डा. माला च्याप्री

Department of Higher Education, Govt. Of M.P.

Under Graduate Annual System Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and Approved by the Governor of M.P.

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रम

केन्द्रीय अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित तथा म.प्र. के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

Session – 2019-20

Class/कक्षा	:	B.A. II-Year /बी.ए.–द्वितीय वर्ष
Subject/विषय	:	संस्कृत
Paper No.प्रश्नपत्र क्रमांक	:	प्रथम प्रश्नपत्र
Title of Paper	:	वेद, दर्शन एवं व्याकरण
Max. Marks/अधिकतम अंक	:	42½

Particulars/विवरण

इकाई - 1	शुकनासोपदेश :- बाणभट्ट विरचित कादम्बरी से (व्याख्या एवं समालोचानात्मक प्रश्न)	8½
इकाई - 2	आस्तिक एवं नास्तिक दर्शन (सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदान्त तथा मीमांसा) चार्वाक, जैन एवं बौद्ध दर्शन का सामान्य परिचय अपेक्षित है।	8½
इकाई - 3	षोडश संस्कारों का परिचय (विधान एवं महत्व का ज्ञान अपेक्षित है)।	8½
इकाई - 4	वाच्य परिवर्तन (कर्तृ, कर्म, एवं भाव वाच्य नियम तथा उदाहरण अपेक्षित है)। संस्कृत में एक निबंध।	8½
इकाई - 5	समास- (लघु सिद्धांत कौमुदी से विग्रह एवं समास का ज्ञान अपेक्षित है)।	8½
नोट	अमहाविद्यालयीन (स्वाध्यायी) विद्यार्थियों के लिये प्रति प्रश्नपत्र 50 अंकों का होगा, प्रत्येक इकाई 10 अंकों की होगी।	

सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :- (नियमित छात्रों के लिए)


खण्ड-अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न- प्रत्येक इकाई से दो-दो प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न ½ अंक का होगा। कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10x½=05


खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न - प्रत्येक इकाई से विकल्प के साथ एक-एक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2½ अंक का होगा। 5x2½=12½

5











## Department of Higher Education, Govt. Of M.P.

## Under Graduate Annual System Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and Approved by the Governor of M.P.

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रम

केन्द्रीय अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित तथा म.प्र. के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

## Session – 2019-20

Class/कक्षा	:	B.A. II-Year /बी.ए.–द्वितीय वर्ष
Subject/विषय	:	संस्कृत
Paper No. प्रश्नपत्र क्रमांक	:	द्वितीय प्रश्नपत्र
Title of Paper	:	महाकाव्य एवं नाटक
Max. Marks/अधिकतम अंक	:	42½

## Particulars/विवरण


इकाई – 1	रघुवंशम्—द्वितीय सर्ग (व्याख्या एवं द्वितीय सर्ग पर समीक्षात्मक प्रश्न)	8½
इकाई – 2	नाट्यशास्त्रम् (प्रथम अध्याय) (नाट्योत्पत्ति एवं नाट्यप्रयोजन) पादयांश की व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न अपेक्षित हैं)	8½
इकाई – 3	नाट्यशास्त्र के पारिभाषिक शब्द। (प्रस्तावना, नान्दी, सूत्रधार, विष्कम्भक, प्रवेशक, विदूषक, प्रकाश, स्वगत एवं भरतवाक्य)।	8½
इकाई – 4	अभिज्ञानशाकुन्तलम्— (प्रथम, चतुर्थ एवं पंचम अंक) (पादयांश की व्याख्या एवं समीक्षात्मक प्रश्न)।	8½
इकाई – 5	संस्कृत के प्रतिनिधि नाट्यकार एवं उनकी कृतियां (भास, कालिदास, शूद्रक, विशाखादत्त, भवभूति एवं भट्टनारायण)।	8½
नोट	अमहाविद्यालयीन (स्वाध्यायी) विद्यार्थियों के लिये प्रति प्रश्नपत्र 50 अंकों का होगा, प्रत्येक इकाई 10 अंकों की होगी।	


सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :- (नियमित छात्रों के लिए)


खण्ड-अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न— प्रत्येक इकाई से दो-दो प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न ½ अंक का होगा। कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10x½=05


खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न – प्रत्येक इकाई से विकल्प के साथ एक-एक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2½ का होगा। 5x2½=12½

खण्ड-स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न— प्रत्येक इकाई से विकल्प के साथ एक-एक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। 5x5=25

7  
  
 28/4/17

28/4/17  
  
 28/4/17

28/4/17  
  
 28/4/17

28/4/17  
  
 28/4/17



पाठ्यग्रन्थ :- चतुष्टयी - 10प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।

संदर्भ ग्रन्थ :-

1. रघुवंशम् - महाकवि कालिदास कृत- व्याख्याकार-डॉ. बाबूराम त्रिपाठी
2. नाट्यशास्त्रम् - आचार्य भरतमुनि कृत
3. अभिज्ञानशाकुन्तलम् - महाकवि कालिदास कृत- व्याख्याकार - डॉ. कपिलदेव द्विवेदी
4. दशरूपकम् - धनंजय कृत।
5. संस्कृत साहित्य का इतिहास - डॉ. बलदेव उपाध्याय।
6. संस्कृत साहित्य का अभिनव इतिहास - डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी।
7. संस्कृत साहित्य की रूपरेखा - चंद्रशेखर पाण्डेय एवं व्यास।

नोट : उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन के निर्देशानुसार द्वि-प्रश्नपत्र प्रणाली में नियमित विद्यार्थियों के लिए 15 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान रहेगा।

*(Handwritten signatures and dates)*

28/4/17

28/4/17

28/4/17

28/4/17

28/4/17

28/4/17

28/4/17



पाठ्यग्रन्थ :- अर्थगौरवम् - म0प्र0 हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल।  
संदर्भ ग्रन्थ :-

1. श्रीमद्भगवद् गीता-
2. मनुस्मृतिनवनीतम् - रामजी उपाध्याय
3. कठोपनिषद् - (हिन्दी टीका सहित)
4. रचनानुवादकौमुदी - डॉ. बाबूलाल त्रिपाठी
5. संस्कृत रचनानुवादकौमुदी - डॉ. कपिलदेव द्विवेदी
6. भाषा विज्ञान - डॉ. भोलानाथ तिवारी
7. भाषा विज्ञान की भूमिका - डॉ. देवेन्द्रनाथ शर्मा
8. भाषा शास्त्र एवं भाषा विज्ञान - डॉ. कपिलदेव द्विवेदी

28.4.17  
 डॉ. उषा भारती  
 28.4.17  
 (K.B. Panda)  
 28.4.17  
 डॉ. जी. (ए.ब.बेल)  
 28.4.17  
 डॉ. देवेन्द्रनाथ शर्मा  
 28.4.17  
 डॉ. कपिलदेव द्विवेदी  
 28.4.17  
 डॉ. बाबूलाल त्रिपाठी  
 28.4.17  
 डॉ. भोलानाथ तिवारी

Department of Higher Education, Govt. Of M.P.

Under Graduate Annual System Syllabus

As recommended by Central Board of Studies and Approved by the Governor of M.P.

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन

स्नातक कक्षाओं के लिए वार्षिक पद्धति के अनुसार पाठ्यक्रम

केन्द्रीय अध्ययन मंडल द्वारा अनुशसित तथा म.प्र. के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित

Session – 2019-2020

Class/कक्षा	:	B.A. III-Year /बी.ए.-तृतीय वर्ष
Subject/विषय	:	संस्कृत
Paper No.प्रश्नपत्र क्रमांक	:	द्वितीय प्रश्नपत्र
Title of Paper	:	काव्य, छन्द एवं अलंकार
Max. Marks/अधिकतम अंक	:	42½

Particulars/विवरण

इकाई - 1	किरातार्जुनीयम् – प्रथम सर्ग (व्याख्या एवं अलोचनात्मक प्रश्न)	8½
इकाई - 2	उत्तररामचरितम् – प्रथम अङ्क (व्याख्या एवं समीक्षात्मक प्रश्न)	8½
इकाई - 3	नवस्पन्द :- (कवि परिचय)- अप्पाशास्त्री, पण्डिता क्षमाराव, जानकीवल्लभ शास्त्री, श्रीनिवास रथ रचनाएं - पञ्जरबद्धःशुकः, वल्लभविलापः, अन्त्यजोद्धारः, मीराचरितम्, भारतीयसन्तगीतिः, भारतम्, नवा कविता, पुरुषार्थ संहिता (व्याख्या एवं प्रश्न)	8½
इकाई - 4	संस्कृत काव्य-विधाओं का परिचय:- (महाकाव्य, गीतिकाव्य, गद्यकाव्य, कथासाहित्य तथा चम्पूकाव्य)	8½
इकाई - 5	छन्द एवं अलंकार - छन्द - अनुष्टुप्, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, वंशस्थम्, वसन्ततिलका, मन्दाकान्ता, शार्दूलविकीर्णितम्, स्रग्धरा। अलंकार - अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थान्तरन्यास विभावना, विशेषोक्ति (काव्यप्रकाश से)	8½
नोट	अमहाविद्यालयीन (स्वाध्यायी) विद्यार्थियों के लिये प्रति प्रश्नपत्र 50 अंकों का होगा, प्रत्येक ईकाई 10 अंकों की होगी।	

सैद्धांतिक प्रश्नपत्र में अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा :- (नियमित छात्रों के लिए)

खण्ड-अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न- प्रत्येक इकाई से दो-दो प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न ½ अंक का होगा। कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10x½=05

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न - प्रत्येक इकाई से विकल्प के साथ एक-एक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2½ का होगा। 5x2½=12½

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including the name 'Dr. Anand' and various official stamps with dates and times.

